

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05032025-261467  
SG-DL-E-05032025-261467असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2025/फाल्गुन 9, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 429
No. 77]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2025/PHALGUNA 9, 1946	[N. C. T. D. No. 429

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह पुलिस-I/स्थापना विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2025

फा. सं. 1/1/2025/गृ0पु0-I/स्था./473 से 481.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 28.06.2024 की अधिसूचना एस0ओ0 संख्या 2506 (ई) के साथ पठित, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 173 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित नियम को अधिसूचित करते हैं: —

## 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—

- इन नियमों को 'दिल्ली बीएनएसएस (प्रथम सूचना रिपोर्ट) नियमावली, 2025' कहा जाए।
- ये नियम सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।
- ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

## 2. परिभाषाएँ— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (i) “इलेक्ट्रॉनिक संचार” का अभिप्राय संहिता की धारा 2(i) में यथा परिभाषित टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य वायरलेस संचार उपकरण या कंप्यूटर, या ऑडियो-वीडियो प्लेयर या कैमरा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से प्रेषित या स्थानांतरित (चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को या एक व्यक्ति से उपकरण को या एक उपकरण से दूसरे व्यक्ति को) किसी भी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियो सामग्री के संचार से है।
- (ii) “सूचना” का अभिप्राय संहिता की धारा 173 की उपधारा (1) के खंड (i) और (ii) के अन्तर्गत मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा प्राप्त सूचना से है;
- (iii) “अपराध” का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत यथा परिभाषित संज्ञेय अपराध से है;
- (iv) “पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी” का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रभारी अधिकारी से है;
- (v) “पुलिस स्टेशन” का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थान से है;
- (vi) “संहिता” का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) से है।
- (2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो बीएनएसएस में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

## 3. सूचना का अभिलेखन—

- (i) संहिता की धारा 173(1) के अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक सूचना को अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में परिवर्तित किया जाएगा और अनुलग्नक-क के अनुसार एकीकृत अन्वेषण प्रपत्र-I (आई.आई.एफ.-I) में दर्ज किया जाएगा।  
बशर्ते कि यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त होती है तो एफआईआर केवल तभी जारी की जाएगी जब सूचना देने वाले ने तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर कर दिए हों।
- (ii) खंड 3(i) के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रिंटआउट डाउनलोड/प्रिंट किया जाएगा तथा पुलिस स्टेशन के अभिलेखों में रजिस्टर-I में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव (गृह-I)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
**FIRST INFORMATION REPORT**  
(भारतीय सुरक्षा संहिता 173 के अन्तर्गत)  
(Under Section 173 BNSS)

1.	जिला	थाना	वर्ष	प्र.सू.रि.सं.	दिनांक
	District.....	PS.....	Year.....	FIR No.....	Dated
2.	(i)	अधिनियम	धाराएँ		
		Act.....	Sections .....		
	(ii)	अधिनियम	धाराएँ		
		Act.....	Sections .....		
	(iii)	अधिनियम	धाराएँ		
		Act.....	Sections .....		
	(iv)	अन्य अधिनियम एवं धाराएँ			
		(Other Acts & Sections) .....			

3. (क) अपराध की घटना दिनांक से दिनांक तक  
 (a) Occurrence of offence Day..... Day from ..... Day to .....  
 समय सीमा Time Period. समय से समय तक  
 (ख) थाने में सूचना प्राप्त हुई दिनांक समय  
 (b) Information received at P.S. Date ..... Time .....
- (ग) सामान्य डायरी संदर्भ: प्रविष्टि सं. समय  
 (c) General Diary Reference: (Entry No.)..... Time.....
4. सूचना का प्रकार लिखित/मौखिक/इलेक्ट्रॉनिक  
 Type of information : Written/Oral/Electronic
5. घटित होने का स्थान : (क) थाने से फासले एवं से दिशा  
 Place of Occurrence (a) Direction and distance from P.S.....  
 ..... गश्त सं. (Beat No.).....  
 (ख) (b) पता address).....  
 .....  
 (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तो  
 (c) In case, outside the limit of this Police Station, then:  
 थाने का नाम जिला  
 Name of P.S. .... District .....
6. शिकायतकर्ता/सूचनाकार  
 Complainant/Informant:  
 (क) नाम  
 (a) Name .....  
 (ख) पिता/पति का नाम  
 (b) Father's/Husband's Name .....  
 (ग) जन्मतिथि/वर्ष (घ) राष्ट्रीयता  
 (c) Date/Year of Birth..... (d) Nationality.....  
 (ङ) पारपत्र सं. जारी करने की तिथि जारी करने का स्थान  
 (e) Passport No..... Date of issue..... Place of issue.....  
 (च) व्यवसाय  
 (f) Occupation.....  
 (छ) पता  
 (g) Address .....  
 (ज) टेलिफोन नं.  
 (j) Tel No .....
7. ज्ञात/संदेहास्पद/अज्ञात सिद्ध दोषियों का पूरा ब्यौरा दिजिए (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)  
 Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)  
 (1) .....  
 (2) .....
8. शिकायतकर्ता/सूचनाकार द्वारा रिपोर्ट विलम्ब से रिपोर्ट करने के कारण  
 Reasons for delay in reporting by the complainant/informant  
 .....  
 .....  
 .....
9. चुराई गई/सम्बद्ध सम्पत्ति का ब्यौरा दिजिए (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)  
 Particulars of properties stolen (Attach separate sheet, if necessary)  
 .....  
 .....

10. चुराई गई/सम्बद्ध सम्पत्ति का मूल्य  
Total value of property stolen.....
11. मृत्यु की जांच रिपोर्ट/ अप्राकृतिक मृत्यु केस संख्या, यदि कोई हो  
Inquest/Report/U.D. case No., if any. ....
12. प्र.सू.रि. (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें  
F.I.R. contents (Attach separate sheet, if requested)
13. **की गई कार्रवाई (Action taken)** चूंकि उक्त सूचना, मद सं. 2 पर उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने का पता चलता है: (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2) :

- (1) मामला पंजीकृत किया और जांच आरम्भ की गई या (Registered the case and took up the investigation or)
- (2) श्री/श्रीमती/कु. जांच अधिकारी का नाम/(Directed Sh./Smt./Km (Name of I.O.)..... पद(Rank).....  
(सं.) No..... को जांच आरम्भ करने के निर्देश दिये गए या (to take up the investigation or)
- (3) जिन कारणों से जांच करने से इन्कार किया गया (Refused investigation due to) ..... या Or
- (4) मामला स्थानान्तरित किया गया, थाने का नाम (Transferred to P.S.) .....जिला (District).....on क्षेत्राधिकार की दृष्टि से (point of jurisdiction).

(प्र.सू.रि. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले को पढ़कर सुनाई गई, जिसने सही लेखन की पुष्टि की और शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले को एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई।)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost

**पढ़कर सुनाया और सही पाया गया। (R.O.A.C)**

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)  
Signature of Officer in charge, Police Station

14. (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले के  
हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)  
Signature/Thumb impression  
of the complainant/informant.
- नाम (Name).....  
पद (Rank).....संख्या(No.).....

15. न्यायालय को भेजने की तिथि और समय (Date and time of despatch to the court).....

प्रथम सूचना रिपोर्ट की मद संख्या 7 की संलग्नक  
Attachment to item 7 of First Information Report

संदिग्ध/अभियुक्त की शारीरिक बनावट, विकृतियों तथा अन्य विवरण (यदि ज्ञात हों/देखे गए हों)  
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused : (If known/seen)

क्र. सं. Sl. No.	लिंग Sex	जन्मतिथि/ वर्ष Date/Year of Birth	शारीरिक बनावट Build	कद (से.मी. में) Height (cms.)	रंग Complexion	पहचान के चिन्ह Identification Mark (s)
1	2	3	4	5	6	7

विकृतियाँ / विशिष्टियाँ Deformities/ Peculiarities	दोत Teeth	बाल Hair	आँखें Eyes	आदतें Habit(s)	पहनावा Dress Habit(s)	
8	9	10	11	12	13	

भाषा / बोली Language/ Dialect	शरीर के किस हिस्से पर, निम्नलिखित चिह्न मौजूद है ? Which place of body the following sign present				
	जले हुए का Burn Mark	धवल रोग Leucoderma	मस्सा Mole	घाव Scar	गुदे हुए का Tattoo
14	15	16	17	18	19

इन मदों में प्रविष्टि तभी की जाएगी यदि शिकायतकर्ता/इतिहा देने वाला व्यक्ति, संदिग्ध/अभियुक्त के बारे में एक या एक से अधिक विवरण देता है।

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

## HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 28th February, 2025

**F.No. 1/1/2025/HP-I/Estt./473 to 481.**—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 173 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023), read with Notification bearing S.O. No. 2506(E), dated 28.06.2024 of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is pleased to notify the following rules:-

#### 1. Short title and commencement—

- These rules may be called as 'Delhi BNSS (First Information Report) Rules, 2025'.
- These rules shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

#### 2. Definitions: (1) In these rules unless the context otherwise requires-

(i) **"Electronic Communication"** means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person) by means of an electronic device including telephone, mobile phone, or other wireless communication device, or a computer, or audio-video player or camera or any other electronic device or electronic form, as defined in section 2(i) of the Sanhita;

(ii) **"Information"** means the information received orally, in writing or by electronic communication under clause (i) and (ii) of sub-section (1) of Section 173 of the Sanhita;

(iii) **"Offence"** means the cognizable offence as defined under clause (g) of sub-section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;

(iv) **"Officer in charge of a police station"** means the officer in charge as defined under clause (r) of sub-section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;

(v) **"Police Station"** means the place as defined under clause (u) of Sub-Section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023,

(vi) **'Sanhita'** means The Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023).

(2) All other words and expressions shall have the same meaning as assigned to them in the BNSS.

### 3. Recording of Information:-

(i) Every information received under section 173(1) of the Sanhita shall be converted into First Information Report (FIR) on Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) and entered in Integrated Investigation Form-I (I.I.F.-I) as at **Annexure-A**.

Provided that if the information is received by electronic form, the FIR shall be issued only after the informant has signed it within three days.

(ii) A print out of the First Information Report recorded under clause 3(i) shall be downloaded/printed and kept in **Register-I** in Police Station records.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi

RAJIV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home-I)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
**FIRST INFORMATION REPORT**  
(भारतीय सुरक्षा संहिता 173 के अन्तर्गत)  
(Under Section 173 BNSS)

1.	जिला District.....	थाना PS.....	वर्ष Year.....	प्र.सू.रि.सं. FIR No.....	दिनांक Dated
2.	(i)	अधिनियम Act.....	धाराएँ Sections .....		
	(ii)	अधिनियम Act.....	धाराएँ Sections .....		
	(iii)	अधिनियम Act.....	धाराएँ Sections .....		
	(iv)	अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts & Sections) .....			
3.	(क)	अपराध की घटना Occurrence of offence	दिनांक से Day.....	दिनांक तक Day from .....	Day to .....
	(a)	समय सीमा Time Period.		समय से Time from.....	समय तक Time to .....
	(ख)	थाने में सूचना प्राप्त हुई Information received at P.S.		दिनांक Date .....	समय Time .....
	(b)	सामान्य डायरी संदर्भ: प्रविष्टि सं. General Diary Reference: (Entry No.).....		समय Time.....	
	(c)				
4.	सूचना का प्रकार			लिखित / मौखिक / इलेक्ट्रॉनिक	

	Type of information :	Written/Oral/Electronic
5.	घटित होने का स्थान : (क) थाने से फासले एवं से दिशा Place of Occurrence (a) Direction and distance from P.S..... ..... गश्त सं. (Beat No.)..... (ख) (b) पता address)..... ..... (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तो (c) In case, outside the limit of this Police Station, then: थाने का नाम जिला Name of P.S. .... District .....	
6.	शिकायतकर्ता/सूचनाकार Complainant/Informant: (क) नाम (d) Name ..... (ख) पिता/पति का नाम (e) Father's/Husband's Name ..... (ग) जन्मतिथि/वर्ष (घ) राष्ट्रियता (f) Date/Year of Birth..... (d) Nationality..... (ङ) पारपत्र सं. जारी करने की तिथि जारी करने का स्थान (h) Passport No.....Date of issue..... Place of issue..... (च) व्यवसाय (i) Occupation..... (छ) पता (j) Address ..... (ज) टेलिफोन नं. (k) Tel No .....	
7.	ज्ञात/संदेहास्पद/अज्ञात सिद्ध दोषियों का पूरा ब्यौरा दिजिए (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें) Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary) (3) ..... (4) .....	
8.	शिकायतकर्ता/सूचनाकार द्वारा रिपोर्ट विलम्ब से रिपोर्ट करने के कारण Reasons for delay in reporting by the complainant/informant ..... ..... .....	
9.	चुराई गई/सम्बद्ध सम्पत्ति का ब्यौरा दिजिए (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें) Particulars of properties stolen (Attach separate sheet, if necessary) ..... ..... .....	
10.	चुराई गई/सम्बद्ध सम्पत्ति का मूल्य Total value of property stolen.....	
11.	मृत्यु की जांच रिपोर्ट/ अप्राकृतिक मृत्यु केस संख्य, यदि कोई हो Inquest/Report/U.D. case No., if any. ....	
12.	प्र.सू.रि. (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें) F.I.R. contents (Attach separate sheet, if requested)	

13. **की गई कार्रवाई (Action taken)** चूंकि उक्त सूचना, मद सं. 2 पर उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने का पता चलता है: (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2) :

- (1) मामला पंजीकृत किया और जांच आरम्भ की गई या (Registered the case and took up the investigation or)
- (2) श्री/श्रीमती/कु. जांच अधिकारी का नाम/(Directed Sh./Smt./Km (Name of I.O.)..... पद(Rank)..... (सं.) No..... को जांच आरम्भ करने के निर्देश दिये गए या (to take up the investigation or)
- (3) जिन कारणों से जांच करने से इन्कार किया गया (Refused investigation due to) ..... या Or
- (4) मामला स्थानान्तरित किया गया, थाने का नाम (Transferred to P.S.) .....जिला (District).....on क्षेत्राधिकार की दृष्टि से (point of jurisdiction).

(प्र.सू.रि. शिकायतकर्ता/इतिहा देने वाले को पढ़कर सुनाई गई, जिसने सही लेखन की पुष्टि की और शिकायतकर्ता/इतिहा देने वाले को एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई।)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost

**पढ़कर सुनाया और सही पाया गया। (R.O.A.C)**

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signature of Officer in charge, Police Station

14. (शिकायतकर्ता/इतिहा देने वाले के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)  
Signature/Thumb impression of the complainant/informant.

नाम (Name).....

पद (Rank).....संख्या(No.).....

15. न्यायालय को भेजने की तिथि और समय (Date and time of despatch to the court).....

प्रथम सूचना रिपोर्ट की मद संख्या 7 की संलग्नक

Attachment to item 7 of First Information Report

संदिग्ध/अभियुक्त की शारीरिक बनावट, विकृतियों तथा अन्य विवरण (यदि ज्ञात हों/देखे गए हों)

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused : (If known/seen)

क्र. सं. Sl. No.	लिंग Sex	जन्मतिथि/ वर्ष Date/Year of Birth	शारीरिक बनावट Build	कद (से.मी. में) Height (cms.)	रंग Complexion	पहचान के चिन्ह Identification Mark(s)
1	2	3	4	5	6	7

विकृतियों/विशिष्टियाँ Deformities/ Peculiarities	दोत Teeth	बाल Hair	आँखें Eyes	आदतें Habit(s)	पहनावा Dress Habit(s)
8	9	10	11	12	13



--	--	--	--	--	--

भाषा/बोली Language/ Dialect	शरीर के किस हिस्से पर, निम्नलिखित चिन्ह मौजूद है ? Which place of body the following sign present				
	जले हुए का Burn Mark	धवल रोग Leucoderma	मस्सा Mole	घाव Scar	गुदे हुए का Tattoo
14	15	16	17	18	19

इन मदों में प्रविष्टि तभी की जाएगी यदि शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला व्यक्ति, संदिग्ध/अभियुक्त के बारे में एक या एक से अधिक विवरण देता है।

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.